

SHL के स्मार्ट एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए Microsoft Teams के भीतर संरचित साक्षात्कार आयोजित करें

SHL का नवीनतम नवाचार ग्राहकों को एक ही मंच के माध्यम से उनके कैलेंडर और साक्षात्कार को सरल बनाने में मदद करेगा

लंदन, 4 अक्टूबर, 2021 /PRNewswire/ -- लोक विज्ञान के वैश्विक लीडर SHL ने अपने नवीनतम नवाचार की घोषणा की है जिससे नियोजक Microsoft (MS) Teams में संरचित साक्षात्कार (structured interviews) आयोजित कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए लगातार और अधिक कुशल प्रणाली विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत, SHL ने MS Teams एप्लिकेशन विकसित किया जो भर्ती करने वालों और हायरिंग मैनेजरों के दैनंदिन जीवन को सरल बनाता है। SHL ने इससे पहले अपने [Smart Interview Solutions](#) का एकीकरण [Microsoft Teams व Zoom के साथ करने की घोषणा की थी।](#)



दुनिया के महामारी की चपेट में आने के एक साल से अधिक समय के बाद [70% रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर अपनी अधिकांश भर्ती प्रक्रिया को वर्चुअल रखना पसंद करते हैं](#)। रिमोट हायरिंग एचआर का भविष्य है और एक बेहतर उम्मीदवार अनुभव को बनाए रखने के लिए सहज प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। SHL's MS Teams ऐप स्मार्ट और सुविधाजनक हायरिंग समाधान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

SHL के मुख्य उत्पाद अधिकारी ब्रेंडन मिल्के ने नए ऐप पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम लगातार ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के तरीके तलाश रहे हैं। हमारे नवाचार उनकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित हैं। चूंकि हम में से अधिकांश ने दूरस्थ रूप से काम करना जारी रखा है, इसलिए कई विंडोज, कैलेंडर आदि का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है।"

SHL का MS Teams ऐप, MS Teams के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार सहायक की तरह है जो कैलेंडर और सूचनाओं जैसे अन्य MS एप्लिकेशंस के साथ समेकित रूप से एकीकृत करते हुए आपकी सभी भर्ती गतिविधियों का ख्याल रखता है। साक्षात्कारकर्ता अब संरचित, सुसंगत साक्षात्कार शेड्यूल कर सकते हैं, साक्षात्कार नोट्स ले सकते हैं और MS Teams पर ही स्कोर दे सकते हैं।

"MS Teams से एकीकरण पेशेवरों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है और उन्हें साक्षात्कार लेने, सहयोग करने और निष्पक्ष व संरचित तरीके से निर्णय लेने की अनुमति देता है।" मि. मिल्के ने आगे कहा।

रिपोर्ट और प्रतिक्रिया साझा करके सुविज्ञ भर्ती निर्णयों के लिए टीम के साथियों के साथ सहयोग करना बेहद आसान हो जाता है।

यह SHL के ऑन-द-गो इनोवेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। सही प्रतिभा को काम पर रखना और उसका पोषण करना तब आसान हो जाता है जब गहन लोक विज्ञान द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी पूरी प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

SHL के बारे में

SHL का विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति यानी आपके लोगों की क्षमताओं को इष्टतम करता है। प्रतिभा अधिग्रहण से लेकर प्रतिभा प्रबंधन तक, हम आपको किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में सफल होने के लिए आवश्यक विविध, चुस्त और नवीन कार्यबल बनाने में मदद करते हैं।

आपके सभी लोगों के उत्तर के लिए एक मंच। www.shl.com

संपर्क

Kristina Iniguez

PR@shl.com

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/997807/SHL_Logo.jpg